#### JINDAL PHOTO LIMITED

#### JPL/SECT/OCT25/146

October 21, 2025

### The Listing Department National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C-1 Block – G, Bandra-Kurla Complex Bandra (East), Mumbai –400051.

NSE Scrip Code: JINDALPHOT

The Deptt of Corporate Services The BSE Ltd.

25, PJ Towers, Dalal Street Mumbai – 400001. BSE Scrip Code:532624

<u>Sub: Notice - Special Window for Re-lodgement of Transfer Requests of Physical Shares and Company's 100-Days Campaign "Saksham Niveshak"</u>

Dear Sir/Madam,

In terms of Regulation 30 read with Schedule III and other applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 read with SEBI circular SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 02, 2025 and letter issued by IEPF Authority dated July 16, 2025, we are enclosing herewith Newspaper Notice, regarding special window for relodgement of Transfer Requests of Physical Shares and Company's 100- Days Campaign "Saksham Niveshak" was duly published in "Financial Express" and "Jansatta" on October 17, 2025. A copy of the published notice is enclosed herewith for your reference.

The same is also available on the website of the Company at <a href="http://jindalphoto.com/investors.shtml">http://jindalphoto.com/investors.shtml</a>.

Please take the above information on record.

Thanking you,

For Jindal Photo Limited

MUKTA Digitally signed by MUKTA SHARMA Date: 2025.10.21 16:11:42 +05'30'

Mukta Sharma Company Secretary M. No.: F9806 **FINANCIAL EXPRESS** 

# TATA

TATA POWER (Corporate Contracts Department)

The Tata Power Company Limited, 2nd Floor, Sahar Receiving Station Sahar Airport Road, Andheri East, Mumbai-400059 (Board Line: 022-67173917) CIN: L28920MH1919PLC000567

#### NOTICE INVITING TENDER (NIT) The Tata Power Company Limited invites tenders from eligible vendors

for the following packages (Two Part Bidding) in Mumbai A) Construction of Ancillary structure for 110 KV Trombay Mankhurd

Bay Extension work at Mankhurd sub station (Package Ref: CC26SVP025) B) External & internal rehabilitation work of Pump house at Tata Power

Ambernath Receiving Station (Package Ref: CC26SVP026). Reinstatement work post cable laying at Tata Power Parel &

Mahalaxmi Receiving Staion (Package Ref: CC26SVP027). D) Road Resurfacing work at Tata Power Ambernath & Salsette Receiving Station (Package Ref: CC26PRD010).

Interested & eligible bidders for package A, B, C & D to submit Tender Fee. Authorization Letter before 15:00 Hrs. Wednesday, 29" October 2025. For detailed NIT, please visit Tender section on website https://www.tatapower.com. For detailed NIT, please visit Tender section on website <a href="https://www.tatapower.com">https://www.tatapower.com</a>. Also, all future corrigendum's if any, to the said tender will be published on Tender section of above website (Tata Power → Business Associates → Tender Documents) only.

यूको बैंक 🖗 UCO BANK Honours Your Trust (A Good, of India landertakin

Date:- 17.10.2025

Head Office – II, DIT- Procurement & Infrastructure 3 & 4, DD Block, Sector – 1, Salt Lake Kolkata–700064

JCO Bank Invites tender for the following items: Supply, Installation and maintenance of L-1 Biometric devices for branches for E-KYC authentication through GeM Portal.

 Supply, Installation & Maintenance of L0 fingerprint Biometric Devices for Login into Finacle 10: through e-lendering portal (www.tenderwizard.com/UCOBANK). For more details, please refer to https://www.uco.bank.in, https://gem.gov.in & www.tenderwizard.com/UCOBANK

( Deputy General Manager ) DIT- Procurement & Infrastructure



### Jio Credit Limited

(Formerly known as Jio Finance Limited which was formerly known as Reliance Retail Finance Limited) Registered Office: 1st Floor, Building 4NA, Maker Maxity, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai - 400051, India

> CIN: U64990MH2000PLC123731 UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE

E-mail: we.care@jiocredit.in | Website: www.jiocredit.in

## QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2025

(Rs. in crores) Year

Sr. No.	Particulars	Quarter ended September 30, 2025	Half year ended September 30, 2025	Quarter ended September 30, 2024	Year ended March 31, 2025
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1.	Total Income from Operations	302.28	553.57	81.51	258.38
2.	Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	66,75	127,18	41.78	144.93
3.	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	66.75	127.18	41.78	144.93
4.	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items):	49.95	95.17	30.89	108.31
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	49.98	94,94	30.85	108.26
6.	Paid up Equity Share Capital	85.50	85.50	68.12	85.50
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	726.15	726.15	590.24	631.22
8.	Securities Premium Account	4,221.76	4,221.76	3,238.90	4,221.76
9.	Net worth	5,020.06	5,020.06	3,890.39	4,928.59
10.	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	12,006.21	12,006.21	Nil	5,970.00
11.	Outstanding Redeemable Preference Shares	Nil	Nil	Nil	Nil
12.	Debt Equity Ratio	2.39	2.39	Nil.	1.21
13.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -				
	1. Basic:	5.84	11.13	9.89	15.84
	2. Diluted:	5.84	11.13	9.89	15.84
14.	Capital Redemption Reserve	Nil	Nil	Nil	Nil
15.	Debenture Redemption Reserve	Nil	Nil	Nil	Nil
16.	Debt Service Coverage Ratio	NA	NA	NA.	NA
17.	Interest Service Coverage Ratio	NA	NA	NA	NA

### Notes:

Date : October 16, 2025

Place : Mumbai

Place: Ahmedabad Date: October 16, 2025

- These financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee in its meeting held on October 16, 2025 and approved by the Board of Directors in their meeting held on the same date. The statutory auditors of the Company have expressed an unmodified conclusion on the financial results for the quarter and half year ended September 30, 2025.
- 2. The above is an extract of the detailed format of the Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial results for the guarter and half year ended September 30, 2025 are available on the Stock Exchange's websites (https://www.bseindia.com / https://www.nseindia.com/), of National Stock Exchange at https://www.nseindia.com/, BSE Limited at https://www.bseindia.com/ and on the Company's webpage website at https://www.jiocredit.in/financials/.
- For the other line items referred in Regulation 52(4) of the amended Listing Regulations, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange(s) and can be accessed through the website links given in point no. 2 above.

For Jio Credit Limited (Formerly known as Jio Finance Limited which was

formerly known as Reliance Retail Finance Limited Sd/-

Kusal Roy

Managing Director and Chief Executive Officer (DIN: 02268654)

Allotment to Non-Institutional Investors- Above Rs. 2 Lakhs and Upto Rs. 10 Lakhs (After Technical Rejections)

The Basis of Allotment to the Non-Institutional Investors, who have Bid at cut-off Price or at or above the Issue Price of Rs. 91/- per Equity Share, was finalized in consultation with BSE Limited. The category has been subscribed to the extent of 0.85 times. The total number of Equity Shares Allotted in this category is 4,59,600 Equity Shares to 81 successful applicants. The detail of the Basis of Allotment of the said category is as under:

Sr.	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	No. of Equity Shares Allotted per Applicant	Ration of allottees to applicants	Total No. of shares allocated/alloted
1	3,600	34	41.98	1,22,400	26.63	3,600	1:1	1,22,400
2	4,800	23	28.40	1,10,400	24.02	4,800	1:1	1,10,400
3	6,000	5	6.17	30,000	6.53	6,000	1:1	30,000
4	7,200	1	1.23	7,200	1.57	7,200	1:1	7,200
5	8,400	2	2.47	16,800	3.66	8,400	1:1	16,800
6	10,800	16	19.75	1,72,800	37.60	10,800	1:1	1,72,800
	Total	81	100.00	4,59,600	100.00		4	4,59,600

Allotment to Non-Institutional Investors- Above Rs. 10 Lakhs (After Technical Rejections)

The Basis of Allotment to the Non-Institutional Investors, who have Bid at cut-off Price or at or above the Issue Price of Rs. 91/- per Equity Share, was finalized in consultation with BSE Limited. The category has been subscribed to the extent of 1,22 times. The total number of Equity Shares Allotted in this category is 25,69,200 Equity Shares to 30.

Sr. no	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	No. of Equity Shares Allotted per Applicant	Ration of allottees to applicants	Total No. of shares allocated/alloted
1	12,000	8	26.67	96,000	3.07	9,600	1:1	76,800
	12,000		0.00	¥ 31	0.00	1,200	6:8	7,200
2	13,200	1	3.33	13,200	0.42	12,000	11	12,000
3	21,600	1	3.33	21,600	0.69	18,000	1:1	18,000
4	32,400	1	3.33	32,400	1.04	27,600	1:1	27,600
5	36,000	1	3,33	36,000	1.15	30,000	1:1	30,000
6	42,000	1	3.33	42,000	1.34	34,800	11	34,800
7	45,600	1	3.33	45,600	1.46	38,400	431	38,400
8	46,800	1	3.33	46,800	1.50	38,400	1:1	38,400
9	48,000	1	3.33	48,000	1.53	39,600	1:1	39,600
10	49,200	1	3.33	49,200	1.57	40,800	-61	40,800
11	66,000	1	3.33	66,000	2.11	54,000	131	54,000
12	68,400	1	3.33	68,400	2.19	56,400	1:1	56,400
13	81,600	1	3.33	81,600	2.61	67,200	1,1	67,200
14	1,00,800	. 1	3.33	1,00,800	3.22	82,800	ার	82,800
15	1,04,400	1	3.33	1,04,400	3.34	85,200	1:1	85,200
16	1,09,200	2	6.67	2,18,400	6.98	89,400	1:1	1,78,800
17	1,53,600	1	3.33	1,53,600	4,91	1,26,000	1:1	1,26,000
18	1,92,000	1	3.33	1,92,000	6.13	1,57,200	1/1	1,57,200
19	2,20,800	1	3.33	2,20,800	7.06	1,80,000	1.1	1,80,000
20	4,47,600	1	3.33	4,47,600	14.30	3,64,800	1:1	3,64,800
21	4,96,800	1	3.33	4,96,800	15.87	4,05,600	1:1	4,05,600
22	5,48,400	1	3.33	5,48,400	17.52	4,47,600	1:1	4,47,600
	TOTAL	30	100.00	31,29,600	100.00	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	0//45	25,69,200

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARE ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF SHLOKKA DYES LIMITED.

# Network 18

### **NETWORK18 MEDIA & INVESTMENTS LIMITED** CIN: L65910MH1996PLC280969

Regd. Office: First Floor, Empire Complex, 414 - Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013. Tel: +91 22 6666 7777/ 4001 9000

Website: www.nw18.com | Email: investors.n18@nw18.com

### NOTICE TO SHAREHOLDERS

### SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES

In terms of SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 02, 2025 on the captioned subject, please note that the Special Window for re-lodgement of transfer deeds of Network18 Media & Investments Limited will be open till January 6, 2026.

This facility is available only if the transfer deeds were lodged prior to April 1. 2019; and were rejected and returned due to deficiency in the documents.

In case you wish to avail this opportunity, please contact the Company's Registrar and Transfer Agent i.e. KFin Technologies Limited (Unit: Network18 Media & Investments Limited) at their office at Selenium Tower-B, Plot No.31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad 500 032, Toll Free No.1800-309-4001.

The shares that are re-lodged for transfer, if approved, will be issued only in

demat mode and shall be under lock-in for a period of 6 months from the date of transfer.

For further information, please refer to the link for SEBI Circular https://tinyurl.com/sebicjul25 or send an email to nwminvestor@kfintech.com

For Network18 Media & Investments Limited

Place: Mumbai

Date : October 17, 2025

Shweta Gupta Company Secretary and Compliance Officer

### JINDAL PHOTO LIMITED

Regd. Off.: 19" K.M., Hapur-Bulandshahr Road, P.O. Gulaothi, Dist Bulandshahr (U.P.) - 203408 ead Office : Plot No. 12, Sector B-1, Local Shopping Complex, Vasant Kunj, New Delhi- 110070 Tel. No.: 011-40322100, Email ; cs\_jphoto@jindalgroup.com, Website : www.jindalphoto.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS

100 Days Campaign- "Saksham Niveshak" - for KYC and other related updation to prevent transfer of Unpaid / Unclaimed dividends to Investor Education and Protection Fund (IEPF). Notice is hereby given that, the Investor's Education and Protection Fund Authority

('IEPFA). Ministry of Corporate Affairs (MCA') by its circular dated July 16, 2025 has requested Companies to launch a 100 days Campaign - "Saksham Niveshak", to reach out to shareholders whose dividend remain unpaid/unclaimed. The shareholders are informed that the objective of this Campaign is to facilitate the updating of KYC details of the Shareholders of the Company. Those shareholders who wish to update their KYC details are requested to download the KYC updation forms from http://jindalphoto.com/financial/LETTERSEKYC.pdf and to submit the duly filled and signed forms along with KYC documents to the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) at following address: MUFG Intime India Private Limited, Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH-2, C-1 Block, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi - 110058. Website: www.in.mpms.mufg.com E:mail: swapann@in.mpms.mufg.com Tel: 011-49411000/7133

Further, Shareholders holding shares in Dematerialized form are requested to contact their respective Depository Participant (DP) to update the KYC details. Details of the shareholders whose dividend was transferred to Unpaid Dividend Account are made available on the website of the company at http://lindalphoto.com/investors.html. In accordance with the same, during this 100 Days campaign from July 28, 2025 to November 06, 2025 all the eligible shareholders are requested to update their KYC details at the earliest in order to claim their unclaimed dividends and prevent their shares and dividend amount from being transferred to the IEPF Authority. To support the success of this campaign, it is requested to submit the documents before November 06, 2025.

SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER REQUEST OF PHYSICAL SHARES. Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97. dated

July 02, 2025, the Company is pleased to offer one-time special window for physical shareholders to submit re-lodgment requests for the transfer of shares. The Special Window will be open from July 07, 2025 to January 06, 2026 and is applicable to cases where original share transfer requests were lodged prior to April 01, 2019 and were returned/unattended or rejected due to deficiencies in documentation, process or any other reason. The shares re-lodged for transfer will be processed only in dematerialized form during this window. Eligible shareholders may submit their transfer requests along with the requisite documents to the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) MUFG Intime India Private Limited, Noble Heights, 1 Floor, Plot No. NH-2, C-1 Block, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi 110058.

UPDATE KYC AND CONVERT PHYSICAL SHARES INTO DEMAT MODE. The Shareholders who are holding shares in physical form are requested to update their

KYC and also requested to convert their physical share Certificates in to dematerialized form (electronic form).

By Order of the Board of Directors For Jindal Photo Limited

Place: New Delhi Date: October 09, 2025

Mukta Sharma Company Secretary

Welspun ENTERPRISES WELSPUN ENTERPRISES LIMITED CIN: L45201GJ1994PLC023920

Registered Office: Welspun City, Village Versamedi, Taluka Anjar, District Kutch, Gujarat - 370 110 Tel. No.: (+91) 2636 662222 Fax: (+91) 2636 279010 Corp. Office; Welspun House, Kamala City, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai, Maharashtra - 400013

Tel. No.; (+91) 022 6613 6000 Fax: (+91) 022 2490 8020 Email: companysecretary\_wel@welspun.com; website: www.welspunenterprises.com

### NOTICE

NOTICE is hereby given that the 01/2025-26 Extra-Ordinary General Meeting ("EGM") of the Welspun Enterprises Limited ("the Company") will be held on Friday, November 07, 2025, at 11:30 a.m. through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM"), without the physical presence of the members at a common venue, to transact the business(es) as set out in the Notice convening the EGM and the deemed venue of the EGM shall be the registered office of the Company. The Ministry of Corporate Affairs ("MCA"), vide its General Circular No. 20/2020 dated May

05, 2020, read with the subsequent circulars issued from time to time, the latest one being General Circular No. 03/2025 dated September 22, 2025 ("MCA Circulars"), read with applicable circulars issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") has allowed the Companies to conduct the EGM through VC/OAVM without requiring physical presence of the members at a common venue. In compliance with the aforesaid Circulars, the Notice of the EGM has been sent

electronically to all the members whose e-mail address(es) were registered with the

Company/Depository Participant(s) ("DPs") as on BENPOS date i.e. Friday, October 10,

2025. These documents are also be available on the website of the Company a

www.welspunenterprises.com, Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and NSDL a https://www.evoting.nsdl.com/. The dispatch as above was completed on October 16. 2025, through e-mail(s). Members holding shares either in physical mode or dematerialized mode, as on Friday, October 31, 2025, (Cut-off Date), may cast their vote electronically on the business(es) as set forth in the Notice of the EGM through the electronic voting system of NSDL (remote e-Voting). The voting rights of the members shall be in proportion to the equity shares held by

Companies Act 2013 ("the Act").

All the members are informed that:-The business(es) as set forth in the Notice of the EGM may be transacted through

them in the paid-up equity share capital of the Company. Members participating through

the VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the

- remote e-Voting or e-Voting at the EGM The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-Voting or by e-Voting
- system at the EGM shall be Friday, October 31, 2025 The remote e-Voting shall commence on Tuesday, November 04, 2025, at 09:00 A.M. (IST)
- The remote e-Voting shall end on Thursday, November 06, 2025, at 05:00 P.M (IST) Any person holding shares in physical mode or a person, who acquires shares of the Company and becomes a shareholder of the Company after the Notice of the EGM is sent and holds shares as on the cut-off date i.e. Friday, October 31, 2025, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.com. However, if he/ she is already registered with NSDL for remote e-Voting, then he/ she can use his/ her existing User ID and password for casting the vote.
- vi) Members may note that:-
- a) Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently;
- b) The facility for e-Voting will also be made available during the EGM, and those members present at the EGM, who have not cast their vote on the resolutions and are otherwise no barred from doing so, shall be eligible to vote through the e-Voting system during the EGM. The members who have cast their votes through remote e-Voting prior to the EGM may also attend the EGM but shall not be entitled to cast their votes again; and
- beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting or e-Voting at the EGM; vii) The manner of voting remotely for members holding shares in dematerialized mode,

d) Only persons whose name is recorded in the register of members or in the register of

physical mode and for shareholders who have not registered their e-mail addresses is provided in the Notice of the EGM. The details are also hosted on the Company's website at www.welspunenterprises.com viii) Members holding shares in demat mode and have not updated their KYC details are

requested to register their e-mail ID and other KYC details with their depositories through their DPs. Shareholders holding shares in physical mode and have not updated their KYC details are requested to submit Form ISR-1 to update their email, bank account details and other KYC details with Company's Share Registrar and Transfer Agent (RTA) at:-MUFG Intime India Private Limited (Formerly Known as Link Intime India Private Limited)

Unit: Welspun Enterprises Limited, Address: C 101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (West) Mumbai - 400 083

E-mail: investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com This will also enable the members to receive electronic copies of the Notice of the EGM, along

with instructions for remote e-Voting and participation in the EGM through VC/OAVM. ix) In case of any queries and technical assistance, you may refer to the Frequently Asked Questions for members and e-Voting user manual for members available at the Downloads section of https://www.evoting.nsdl.com/ or contact NSDL at the following

toll free number: 022-4886 7000. This notice is being issued for the information and benefit of all the members of the Company in compliance with the applicable Circulars of the MCA and SEBI. The members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the EGM and in particular, instructions for joining the EGM, manner of casting vote through remote e-Voting and e-Voting during the EGM and attending the EGM through VC/OAVM. Members may contact Company Secretary at Companysecretary wel@welspun.com for any

grievance(s) relating to the process of EGM. For Welspun Enterprises Limited

Mumbai, October 16, 2025

Nidhi Tanna Company Secretary ACS 30465

### "IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

4) Allotment to QIBs excluding Anchor Investors (After Technical Rejections)

Allotment to QIBs, who have bid at the Issue Price of Rs. 91/- per Equity Share or above, has been done on a proportionate basis in consultation with BSE Limited. This category has been subscribed to the extent of 1.00 time of QIB portion. As per the SEBI Regulations, Mutual Funds were Allotted 5% of the Equity Shares of QIB Portion available i.e., NIL Equity Shares and other QIBs and unsatisfied demand of Mutual Funds were Allotted the remaining available Equity Shares i.e., 6,14,400 Equity Shares on a proportionate basis. The total number of Equity Shares Allotted in the QIB Portion is 6,14,400 Equity Shares which was allotted to 1 successful QIB Investors. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

FCS: 9806

Category	FI'S/BANK'S	MF'S	IC'S	NBFC'S	AIF	FPC/FII	Others	Total
QIB	84	848	*	£1	¥E	6,14,400	85	6,14,400
Allocation to Marke	et Maker (After Technic	al Rejections &	Withdrawall: Th	a Racic of Allotment t	o Market Maker	who have hid at leeu	a Price of ≇01/-r	ser Equity Shares or

5) Allocation to Market Maker (After Technical Rejections & Withdrawal): The Basis of Allotment to Market Maker who have bid at Issue Price of 391/- per Equity Shares or above, was finalized in consultation with BSE Limited. The category was subscribed 1.00 time i.e. for 3,24,000 Equity Shares the total number of shares allotted in this category is 3,24,000 Equity Shares. The category wise details of the Basis of Allotment are as under: Sr. No. of Shares applied Number of % to Total No. of Shares % to Proportionate Ration of allottees to Total No. of shares

no	for (Category wise)	applications received	total	applied in each category	totai	shares available	applicants	allocated/allotted
1	3,24,000		100.00	3,24,000	100.00	3,24,000	1:1	3,24,000
	TOTAL	1	100.00	3,24,000	100.00	277.00		3,24,000
The F	loard of Directors of ou	r Company at its most	na held	on October 15, 2025 has	takan na	record the basis o	f allotment of Equity St	harge annroyed by the

the board of Directors of our Company at its meeting neig on October 15, 2025 has taken on record the basis of allotment of Equity Shares approved by the Designated Stock Exchange, being BSE Limited and has allotted the Equity Shares to various successful applicants. The Allotment Advice Cum Refund Intimation will be dispatched to the address of the investors as registered with the depositories. Further, instructions to the SCSBs have been dispatched/ mailed for unblocking of funds and transfer to the Public Issue Account on or before October 15, 2025 and payment to non-Syndicate brokers have been issued on October 15, 2025. In case the same is not received within ten days, investors may contact the Registrar to the Issue at the address given below. The Equity Shares allotted to the successful allottees shall be uploaded on or before October 16, 2025 for credit into the respective beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The Company is in the process of obtaining the listing and trading approval from BSE Limited and the trading of the Equity Shares is expected to commence on October 17, 2025.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meaning assigned to them in the Prospectus dated October 15, 2025 ("Prospectus").

### **INVESTORS, PLEASE NOTE**

The details of the allotment made would also be hosted on the website of the Registrar to the Issue, BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED at: www.bigshareonline.com

All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/Sole applicants, serial number of the Application Form, number of shares applied for and Bank Branch where the application had been lodged and payment details at the address of the Registrar given below:

### BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED

Address: Office No. S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400093 Tel No.: 022-62638200

Email: ipo@bigshareonline.com

Investor Grievance Email: investor@bigshareonline.com

Contact Person: Mr. Asif Sayyed SEBI Registration No.; INR000001385

> On behalf of Board of Directors FOR, SHLOKKA DYES LIMITED

Siddharth Gajra

Company Secretary & Compliance Officer

Disclaimer: SHLOKKA DYES LIMITED (is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed the Prospectus with the Registrar of Companies. Gujarat on October 15, 2025 and thereafter with

SEBI and the Stock Exchange. The Prospectus is available on the website of BSE SME at https://www.bseindia.com/market-data/all-upcoming-issues-ipo and is available on the websites of the BRLM at www.ifinservices.in. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please refer to the Prospectus including the section titled "Risk Factors" beginning on page 22 of the Prospectus. The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended or any state securities laws in the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act, 1933 and in accordance with any applicable U.S. State Securities are made. There will be no public.

offering in the United States. epaper.financialexpress.com New Delhi

#### Continued from previous page... Allotment to Non-Institutional Investors- Above Rs. 2 Lakhs and Upto Rs. 10 Lakhs (After Technical Rejections)

The Basis of Allotment to the Non-Institutional Investors, who have Bid at cut-off Price or at or above the Issue Price of Rs. 91/- per Equity Share, was finalized in consultation with BSE Limited. The category has been subscribed to the extent of 0.85 times. The total number of Equity Shares Allotted in this category is 4,59,600 Equity Shares to 81 successful applicants. The detail of the Basis of Allotment of the said category is as under:

Sr. no	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	No. of Equity Shares Allotted per Applicant	Ration of allottees to applicants	Total No. of shares allocated/alloted
1	3,600	34	41.98	1,22,400	26.63	3,600	1:1	1,22,400
2	4,800	23	28.40	1,10,400	24.02	4,800	1:1	1,10,400
3	6,000	5	6.17	30,000	6.53	6,000	1:1	30,000
4	7,200	1	1.23	7,200	1.57	7,200	1:1	7,200
5	8,400	2	2.47	16,800	3.66	8,400	1:1	16,800
6	10,800	16	19.75	1,72,800	37.60	10,800	1:1	1,72,800
	Total	81	100.00	4,59,600	100.00			4,59,600

### Allotment to Non-Institutional Investors- Above Rs. 10 Lakhs (After Technical Rejections)

The Basis of Allotment to the Non-Institutional Investors, who have Bid at cut-off Price or at or above the Issue Price of Rs. 91/- per Equity Share, was finalized in consultation with BSE Limited. The category has been subscribed to the extent of 1.22 times. The total number of Equity Shares Allotted in this category is 25,69,200 Equity Shares to 30. successful applicants. The details of the Basis of Allotment of the said category is as under:

Sr.	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	No. of Equity Shares Allotted per Applicant	Ration of allottees to applicants	Total No. of shares allocated/alloted
1	12,000	8	26.67	96,000	3.07	9,600	1:1	76,800
	12,000		0.00	97,000	0.00	1,200	6:8	7,200
2	13,200	1	3.33	13,200	0.42	12,000	1:1	12,000
3	21,600	1	3,33	21,600	0.69	18,000	1:1	18,000
4	32,400	1	3.33	32,400	1.04	27,600	1:1	27,600
5	36,000	1	3.33	36,000	1.15	30,000	1:1	30,000
6	42,000	1	3.33	42,000	1.34	34,800	1:1	34,800
7	45,600	1	3.33	45,600	1.46	38,400	1:1	38,400
8.	46,800	1	3.33	46,800	1.50	38,400	1:1	38,400
9	48,000	1	3.33	48,000	1.53	39,600	1:1	39,600
10	49,200	1	3.33	49,200	1.57	40,800	1,1	40,800
11	66,000	1	3.33	66,000	2.11	54,000	1:1	54,000
12	68,400	1	3.33	68,400	2.19	56,400	1:1	56,400
13	81,600	1	3.33	81,600	2.61	67,200	1:1	67,200
14	1,00,800	(4	3.33	1,00,800	3.22	82,800	1:1	82,800
15	1,04,400	1	3.33	1,04,400	3.34	85,200	1:1	85,200
16	1,09,200	2	6.67	2,18,400	6.98	89,400	1:1	1,78,800
17	1,53,600	1 1	3.33	1,53,600	4.91	1,26,000	1:1	1,26,000
18	1,92,000	1	3.33	1,92,000	6.13	1,57,200	1:1	1,57,200
19	2,20,800	1	3.33	2,20,800	7.06	1,80,000	1:1	1,80,000
20	4,47,600	1	3.33	4,47,600	14.30	3,64,800	1:1	3,64,800
21	4,96,800	1	3.33	4,96,800	15.87	4,05,600	1:1	4,05,600
22	5,48,400	1	3.33	5,48,400	17.52	4,47,600	1:1	4,47,600
	TOTAL	30	100.00	31,29,600	100.00			25,69,200

### 4) Allotment to QIBs excluding Anchor Investors (After Technical Rejections)

category is 3,24,000 Equity Shares. The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

Allotment to QIBs, who have bid at the Issue Price of Rs. 91/- per Equity Share or above, has been done on a proportionate basis in consultation with BSE Limited. This category has been subscribed to the extent of 1.00 time of QIB portion. As per the SEBI Regulations, Mutual Funds were Allotted 5% of the Equity Shares of QIB Portion available i.e., NIL Equity Shares and other QIBs and unsatisfied demand of Mutual Funds were Allotted the remaining available Equity Shares i.e., 6,14,400 Equity Shares on a proportionate basis. The total number of Equity Shares Allotted in the QIB Portion is 6,14,400 Equity Shares which was allotted to 1 successful QIB Investors. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

जनसता

THE RESERVE TO SERVE SHEET									
Category	FI'S/BANK'S	MF'S	IC'S	NBFC'S	AIF	FPC/FII	Others	Total	
QIB	250	20	9	1881	82	6,14,400	×	6,14,400	

 Allocation to Market Maker (After Technical Rejections & Withdrawal): The Basis of Allotment to Market Maker who have bid at Issue Price of ₹91/- per Equity Shares or above, was finalized in consultation with BSE Limited. The category was subscribed 1.00 time i.e. for 3,24,000 Equity Shares the total number of shares allotted in this

Sr. no	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	Proportionate shares available	Ration of allottees to applicants	Total No. of shares allocated/allotted
1	3,24,000	1	100.00	3,24,000	100.00	3,24,000	1:1	3,24,000
	TOTAL	1	100.00	3,24,000	100.00			3,24,000

The Board of Directors of our Company at its meeting held on October 15, 2025 has taken on record the basis of allotment of Equity Shares approved by the Designated Stock Exchange, being BSE Limited and has allotted the Equity Shares to various successful applicants. The Allotment Advice Curn Refund Intimation will be dispatched to the address of the investors as registered with the depositories. Further, instructions to the SCSBs have been dispatched/ mailed for unblocking of funds and transfer to the Public Issue Account on or before October 15, 2025 and payment to non-Syndicate brokers have been issued on October 15, 2025. In case the same is not received within ten days, investors may contact the Registrar to the Issue at the address given below. The Equity Shares allotted to the successful allottees shall be uploaded on or before October 16, 2025 for credit into the respective beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The Company is in the process of obtaining the listing and trading approval from BSE Limited and the trading of the Equity Shares is expected to commence on October 17, 2025.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meaning assigned to them in the Prospectus dated October 15, 2025 ("Prospectus").

### INVESTORS, PLEASE NOTE

The details of the allotment made would also be hosted on the website of the Registrar to the Issue, BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED at: www.bigshareonline.com

All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/Sole applicants, serial number of the Application Form, number of shares applied for and Bank Branch where the application had been lodged and payment details at the address of the Registrar given below:

### BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED

Address: Office No. S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai – 400093

Tel No.: 022-62638200

Email: ipo@bigshareonline.com Investor Grievance Email: investor@bigshareonline.com

Contact Person: Mr. Asif Sayyed

SEBI Registration No.: INR000001385

On behalf of Board of Directors FOR, SHLOKKA DYES LIMITED

Company Secretary & Compliance Officer

ऋण वसूली न्यायाधिकरण—। दिल्ली चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग संसद मार्ग

नई दिल्ली-110001

1. मेसर्स प्रेम केंबल्स के प्रोपशइटर श्री शकेश कुमार

निवासी खसरा नंबर 297. औद्योगिक क्षेत्र करावल नगर

2. श्री राकेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री राम नाध्य, मेसर्स प्रेम

श्रीमती मेघा गोयल पत्नी श्री अक्षत गोयल प्रतिवादी

नंबर 2 से 4 एआरई निवासी 4849/24, प्रहलाद गली

जबकि उपरोक्त आवेदक ने आपके विरुद्ध रूपये

34,27,149.03 (चौंतीस लाख सत्ताईस हजार एक

अंसारी रोड दरियागंज केंद्रीय दिल्ली-110002

ओए. 642/2024

बैंक ऑफ बडीदा

मेसर्स प्रेम केबल्स.

शाहदत्त दिल्ली-110094

3. श्री अवत गोयल पुत्र राकेश गोयल

केबल्स के प्रोपशहटर

Siddharth Gajra

\_आवेदक

#### Place: Ahmedabad Date: October 16, 2025

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARE ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF SHLOKKA DYES LIMITED.

Disclaimer: SHLOKKA DYES LIMITED (is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed the Prospectus with the Registrar of Companies, Gujarat on October 15, 2025 and thereafter with SEBI and the Stock Exchange. The Prospectus is available on the website of BSE SME at https://www.bseindia.com/market-data/all-upcoming-issues-ipo and is available on the websites of the BRLM at www.ifinservices.in. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please refer to the Prospectus including the section titled "Risk Factors" beginning on page 22 of the Prospectus.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended or any state securities laws in the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act, 1933 and in accordance with any applicable U.S. State Securities laws. The Equity Shares are being issued and sold outside the United States in 'offshore transactions' in reliance on Regulation "S" under the Securities Act, 1933 and the applicable laws of each jurisdiction where such issues and sales are made. There will be no public offering in the United States

97	प्रार	नंगिक विवरण
1.	कॉर्पोरेट देनदार का नाम	ब्लू —स्मार्ट मोबिलिटी टेक प्राइवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	09.01.2029
3.	प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	कंपनी रजिस्ट्रार, अहमदाबाद
4.	कॉर्पोरेट पहचान कॉर्पोरेट देनदार की संख्या	U63030GI20f 9PTC105970
5.	कॉर्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	15वीं मंजिल, ए ब्लॉक वेलगेट बिजनेस बे, एस.जी रोड, इलिवराज पार्क, अहमदाबाद, अहमदाबाद शहर, गुजरात, भारत, 380051
6.	कॉर्पोरेट देनदार के संबंध में दिवालियापन प्रारंभ होने की तारीख	14.10.2025
7.	दिवाला समाधान प्रक्रिया बंद होने की अनुमानित तारीख	12.04.2026
8.	अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में कार्य करने वाले दिवाला पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या	पवन कुमार गोयल IBBI/IPA-001/IP-P00875/2017- 2018/11473
9.	अंतरिम समाधान पेशेवर का पता और ईमेल, जैसा कि बोर्ड के पास पंजीकृत है	304. डी.आर. चौंबर, 12 / 56, डी.बी. गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली—110005. ईमेलः — ca.pawangoyal@gmail.com
10.	अंतरिम समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता और ई–मेल	304. डी.आर. चौंबर, 12 / 56, डी.बी. गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली—110005. ईमेलः — blusmartmt.cirp@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	28.10.2025 (सीआईआरपी प्रारंभ से 14 दिन)
12.	अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा धारा 21 की उपधारा (6ए) के खंड (बी) के तहत लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई हों, सुनिश्चित की गई हैं	कोई नहीं
13.	किसी वर्ग में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए पहचाने गए दिवाला पेशेवरों के नाम	लागू नहीं
14.	(क) प्रासंगिक प्रपत्र और (ख) अधिकृ त प्रतिनिधियों का विवरण यहां	वेब लिंकः https://ibbi.gov.in/en/home/downloads

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने 14.10.2025 को ब्लू —स्मार्ट मोबिलिटी टेक प्राइवेट लिमिटेड की कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। ब्लू -स्मार्ट मोबिलिटी टेक प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से अनुरोध है कि वे अपने दावे प्रमाण सहित 28. 10.2025 तक या उससे पहले उपरोक्त प्रविष्टि संख्या 10 में उल्लिखित पते पर अंतरिम समाधान पेशेवर के

वित्तीय लेनदार अपने दावे प्रमाण सहित केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। अन्य सभी लेनदार अपने दावे प्रमाण सहित व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। उपरोक्त प्रविष्टि संख्या 12 में सुचीबद्ध किसी वर्ग से संबंधित वित्तीय लेनदार को, फॉर्म ६। में वर्ग (रियल एस्टेट आवंटियों) के वित्तीय लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए उपरोक्त प्रविष्टि संख्या 13 में सूचीबद्ध तीन दिवालियापन पेशेवरों में से अपने अधिकृत प्रतिनिधि की पसंद का संकेत देना होगा। दावे के झूठे या भ्रामक प्रमाण प्रस्तुत करने पर कानून के अनुसार दंड लगाया जाएगा।

दिनांकः 17-10-2025 स्थानः नई दिल्ली

अंतरिम समाधान पेशेवर (एएफए संख्या AA1/11473/02/311225/107690]31/12/2025 तक मान्य ब्लू -स्मार्ट मोबिलिटी टेक प्राइवेट लिमिटेड

जिंदल फोटो लिमिटेड सीआईएन: L33209UP2004PLC095076

#### प्रधान कार्यालयः प्लॉट नं. 12, सेक्टर बी-1, स्थानीय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070 दूरभाषः ०११-४०३२२१००, ईमेलः csjphoto@jindalgroup.com, वेबसाइटः www.jindalphoto.com

पंजीकृत कार्यालयः 19वाँ के.एम., हापुड-बुलंदशहर रोड, पीओ गुलावठी, जिला बुलन्दशहर (उ.प्र.) • 203408

. 100 दिवसीय अभियान – ''सक्षम निवेशक'' – केवाईसी और अन्य संबंधित अद्यतन

### शेयरधारकों को सुचना

के लिए, ताकि अवैतनिक/अदावाकृत लाभांश को निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में स्थानांतरित होने से रोका जा सके।

एतद्वारा सुचित किया जाता है कि विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (सीआईईपीएफए), कॉपोरेंट कार्य मंत्रालय (एमसीए') ने 16 जुलाई, 2025 के अपने परिपत्र द्वारा कंपनियों से अनुरोध किया है कि वे उन शेयरधारकों तक पहुंचने के लिए 100 दिनों का अभियान

- ''सक्षम निवेशक'' शुरू करें, जिनके लाभांश अवैतनिक/अदावाकृत हैं।

शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि इस अभियान का उद्देश्य कंपनी के शेयरधारकों के केवाईसी विवरणों को अद्यतन करने में सुविधा प्रदान करना है। जो शेयरधारक अपने केवाईसी विवरणों को अद्यतन करना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि http://jindalphoto.com/financial/LETTERSEKYC.pdf से केवाईसी अद्यतनीकरण फॉर्म डाउनलोड करें और विधिवत भरे और हस्ताक्षरित फॉर्म को केवाईसी दस्तावेजों के साथ रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) को निम्नलिखित पते पर जमा क एमयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोबल हाइट्स, पहली मंजिल, प्लॉट नंबर एनएच-2, सी-1 ब्लॉक, सावित्री मार्केट के पास, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058। वेबसाइटः www.in.moms.mufa.com, ईःमेलः swapann@in.mpms.mufa.com, फोनः 011 -49411000/7133

साथ ही. डीमैटेरियलाइज्ड फार्म में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क करके केवाईसी विवरण अपडेट करें। जिन शेयरधारकों के लाभांश को अवैतनिक लाभांश खाते में स्थानांतरित किया गया है, उनका विवरण कंपनी की वेबसाइट http://jindalphoto.com/investors.html पर उपलब्ध है।

इसके अनुसार, 28 जुलाई, 2025 से 6 नवंबर, 2025 तक चलने वाले इस 100 दिवसीय अभियान के दौरान, सभी पात्र शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने अघोषित लाभांश का दावा करने और अपने शेयरों और लाभांश राशि को आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित होने से रोकने के लिए जल्द से जल्द अपने केवाईसी विवरण अपडेट करें। इस अभियान की सफलता में सहयोग के लिए. 6 नवंबर, 2025 से पहले दस्तावेज जमा करने का अनुरोध किया जाता है।

भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः दर्ज करने के लिए विशेष विंडो। सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97

दिनांक 02 जुलाई, 2025 के अनुसरण में, कंपनी भौतिक शेयरधारकों के लिए शेयरों के हस्तांतरण हेतु पुनः जमा अनुरोध प्रस्तुत करने हेतु एकमुश्त विशेष विंडो प्रदान करते हुए प्रसन्न है। यह विशेष विंडो 07 जुलाई, 2025 से 06 जनवरी, 2026 तक खुली रहेगी और उन मामलों पर लागू होगी जहाँ मूल शेयर हस्तांतरण अनुरोध 01 अप्रैल, 2019 से पहले दर्ज किए गए थे और दस्तावेजों, प्रक्रिया में किमयों या किसी अन्य कारण से वापस कर दिए गए/अनुपस्थित या अस्वीकार कर दिए गए थे। हस्तांतरण के लिए पुनः जमा किए गए शेयरों को इस विंडो के दौरान केवल डीमैट रूप में ही संसाधित किया जाएगा। पात्र शेयरधारक आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने स्थानांतरण अनुरोध कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) एमयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोबल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट संख्या एनएच-2, सी-1 ब्लॉक, सावित्री मार्केट के पास, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058 को प्रस्तुत कर सकते हैं।

केवाईसी अपडेट करें और भौतिक शेयरों को डीमैट मोड में बदलें। जिन शेयरधारकों के पास भौतिक रूप में शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपना केवाईसी अपडेट

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: ०९ अक्टूबर, २०२५

करें और अपने भौतिक शेयर प्रमाणपत्रों को डीमैट रूप (इलेक्ट्रॉनिक रूप) में परिवर्तित करें।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार कृते जिंदल फोटो लिमिटेड मुक्ता शर्मा

कंपनी सचिव

एफसीएस: 9806

🕋 टाटा कैपिटल लिमिटेड मंजित, पेनिनसुता बिजनेस पार्क, गुणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई, महाराष्ट्-400013 शाखा पता: 09वीं मंजिल, वीडियोकॉन टॉवर, ब्लॉक ई-1, झंडेवातान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-11005!

शुद्धिपत्र

कृपया इस समाचार पत्र में 14-अक्टूबर-2025 को प्रकाशित "अचल संपत्ति की बिक्री हेतु बिक्री सूचना (सुरक्षा हित् (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के अंतरीत नियम 9(1) के अंतरीत)" के हमारे पिछर् विज्ञापन का संदर्भ लें, जिसमें (उधारकर्ता) श्री धनपाल सिंह है तथा ऋष् खाता संख्या TCFLA0386000011069066 और GECL ऋण खाता संख्या: TCFLA0359000010924087 है । यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अंतिम संस्करण क प्रिंट करते समय एक टाइपोग्राफिकल प्रिंटिंग नुटि अनजाने में हुई है जिसमें ऊपर से तीसरे पैरे के विवृरण को "जबकि सुरक्षित ऋण की वसूती हेतु सुरक्षित संपत्ति की विक्री की जानी है; और जबकि ऋण खाता संख्या TCFLA0386000011069066 तथा GECL ऋण खाता (पुनर्गठित) संख्या TCFLA0359000010924087 के अंतर्गत दिनांक 22-सितंबर-2025 को कुल ₹3,25,39,527/-(रुपये तीन करोड़ पच्चीस लाख़ उन्तीस हजार पांच् सौ सत्ताईस मात्र) की राश्चि देय थी, जिसमें ₹3,02,89,280/- ऋण खाता TCFLA0386000011069066 के अंतर्गत तथा ₹22,50,247/- ऋण खाता TCFLA0359000010924087 के अंतर्गत देय थी, जिसकी मांग अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत दिनांक 17-मई-2022 को जारी नोटिस के माध्यम से की गई थी।" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए न कि पहले प्रकाशित के रूप में । इस खुद्धिपत्र को उक्त प्रकाशन की निरंतरता में पढ़ा जाना चाहिए और अन्य सभी नियम व शर्ते अपरिवर्तित

> हस्ता/-, प्राधिकृत अधिकारी, टाटा कैपिटल लिमिटेड

UMMEED

स्थानः गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) दिनांक: 16.10.2025

## FORM NO. INC-26

#### **PUBLIC NOTICE** [Pursuant to Rule 30 of Companies

(Incorporation) Rules 2014] Advertisement to be published in Newspaper for the change in Registered Office of the Company from one state to another

**Before the Central Government** Regional Director, Northern Region, NCT of Delhi and Haryana)

In the matter of sub-section 4 of section 13 of the Companies Act 2013 and clause (a) of sub-section (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules 2014

AND In the matter of M/S SPAARK **BRESSON WTE PRIVATE LIMITED** (FORMERLY KNOWN AS SPAAK **BRESSON PRIVATE LIMITED)** 

CIN: U93000HR2015PTC056440 Registered Office: GF-50, Block V, Eros Garden, Charmwood Village, Surajkund, Faridabad - 121009 Harvana, India

Notice is hereby given to General Public that the Company proposes to make the application to the Central Government under section 13 of the Companies Act 2013, seeking confirmation of alteration o Memorandum of Companies of the company in term of special resolution passed at Annual General Meeting held on FRIDAY, 26TH DAY OF SEPTEMBER 2025 to enable the Company to change its Registered Office from "State of Haryana" to

"State of Uttar Pradesh". Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change, may deliver either on MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filling investor **complaint form** or cause to be deliver or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and ground of opposition to the Regional Director at the Address B-2 WING, 2nd FLOOR, PARYAVARAN BHAWAN, CGO COMPLEX, NEW DELHI **– 110003,** within 14 Days of date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered

ADDRESS OF REGISTERED OFFICE: GF-50, Block V, Eros Garden, Charmwood Village, Surajkund, Faridabad - 121009 Haryana, India

below:

For and on behalf of applicant SPAARK BRESSON WTE PRIVATE LIMITED (FORMERLY KNOWN AS SPAAK

**BRESSON PRIVATE LIMITED)** Sd/-SUBHASH CHAND DIRECTOR DIN: 08055784 Date: 17.10.2025

इक्टिटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व में इक्टिटास फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) पंजीकृत कार्यालयः नंबर 769, स्पेंसर प्लाजा, चौथी मंजिल, फेज— 11, अन्ना सलाई, चेन्नई — 600002

कब्जा सूचना (नियम 8(1) के अंतर्गत - अचल संपत्ति के लिए) जबकि नीचे हस्ताक्षरकर्ता मैसर्स इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभतिकरण और पनर्निर्माण

और प्रतिभूति हित के प्रवर्तन ख्आधिनियम, 2002 (2002 का 54), के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के खनियम 3, के साथ धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित कुल बकाया राशि चुकाने के लिए एक मांग नोटिस जारी किया। चुंकि नीचे उल्लिखित उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर नीचे बताई गई राशि चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम जनता को इसके द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे अनुसूची में उल्लिखित संपत्तियों के साथ लेनदेन न करें और संपत्तियों के साथ कोई भी लेनदेन मेसर्स इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड और उस पर आगे ब्याज और अन्य शुल्कों के अधीन होगा। ''प्रतिभृत संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।"

क्रं. सं.	उधारकर्ता (ओं) / गारंटर(ओं) / का नाम	सुरक्षित संपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण	मांग सूचना के अनुसार तिथि और राशि	कब्जा लेने की तिथि
1	शाखा — अम्बाला ऋण संख्या — SEAMBAL0358979 उधारकर्ता— परविंदर कुमार सह—उधारकर्ता—जितेंद्र सैनी, प्रियंका	गैर-कृषि संपत्ति के सभी टुकड़े और पार्सल आवासीय हैं। संपत्ति का क्षेत्रफल 1 बिस्वा 16 बिसवांसी = 66 वर्ग गज है और कुल भूमि का 36/1220 हिस्सा है। कुल भूमि का क्षेत्रफल 3 बीघा 1 बिस्वा है। यह खेवट संख्या 294, खतौनी संख्या 412, खसरा संख्या 1549/2/2 (3-1) में शामिल है। यह गाँव संघोरा, तहसील बाबैन, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा में स्थित है। बिक्री विलेख, जिस पर वसिकानो. 957 दिनांक 11.02.2021 और म्यूटेशन संख्या 2067 उप-पंजीयक कार्यालय में उपलब्ध है। उत्तर मेंरू सड़क 18'-0" चौड़ी/27'-0", दक्षिण में: मलकीत सिंह का घर/27'-0", पूर्व में: खुला प्लॉट/22'-0", पश्चिम में: भगवान दास की दुकान/22'-0"	और रूप्यें 12,39,593 / —	15.10.2025
दिनांव	क — 17.102025, स्थान -	- हरियाणा अधिकृत अधिकारी, इक्विटास	स्मॉल फाइनेंस	बैंक लिमिटेड

धारा 13(2) के अंतर्गत गांग सूचना

की तिथि और राशि

09-अवदूबर-2025

₩ 28,52,311/-

(रुपये अद्वार्डस लाख बावन

हजार तीन सौ ग्यारह मात्र)

09-अक्टूबर-25 को अतिरिक्त

ब्याज और अन्य शुल्कों के साध

दिनांक 10-अक्टूबर-2025 से।

₹ 1,54,749/-

(रुपये एक लाख बीबान हजार

सात सौ उनवास मात्र)

08 अक्टूबर 2025 तक + अतिरिक्त

म्याज और अन्य शुरुक 10 अक्टूबर

2025 की तिथि से

08-अक्टूबर-2025

专 3,00,652/-

(रुपये तीन लाख आव

सी बावन मात्र) 06-अक्टूबर-25

के अनुसार + अतिरिक्त स्थाज

और अन्य शुक्क दिनांक

09-अक्टूबर-2025 से

14 **सम्बद्धार** 2025

₹ 5,70,814/-

(रुपये पाँच लाख सत्तर हजार

आठ सी चीवह गात्र)

14-अक्टूबर-25 को + आतिरिक्त

ब्याज और अन्य शुल्क दिनांक

14-HUCAY-2025

节 9,83,157/-

(रुपये नौ लाख तिरासी हजार

एक सौ सत्तावन मात्र)

14-अक्टबर-25 को + अतिरिक्त

म्याज और अन्य शुक्क दिनांक

15-सक्टबर-2025 से

वन्त्रीय सावशिंग फाउनेंश प्रावशेट लिपिटेज

प्राचिक्त अधिकारी, श्री गौरव त्रिपाठी, गोबाइल- sessessron

उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

ंजीकृत कार्यालय : 2009-2014, 20वां तल, भैग्नम ग्लोबल

पार्क, सेक्टर-58, गुरूगाम (हरियाणा)- 122002

सीआईएन : यू65922एचआर2016पीटीसी057984

सरफेरी अधिनियम की बारा (13)2 के अंतर्गत मांग सूचना

चूंकि ऋण खाता एनपीए बन जाता है इसलिए अधिकृत अधिकारी ने वित्तीय परिसंपनियों के प्रतिबृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथ

मीतेभृति हिरा प्रयानि क्षप्रिनियम 2002 की चारा 15[2] के तहरा, निम्न गालिका में वर्णितानुसार उधारकर्दाा/आयेदक)

पूरी शक्ति जमा नहीं करते हैं, तो नीचे उत्तिखित बधक संपति/ प्रतिमृत परिसंपत्तियों की मीलामी से शक्ति की वसूली की

लएगी। जल उपारकर्ताजी को सुधित किया जाता है कि वे मांग सुधमा की तिथि से 60 दिनों के मीतर भागी व्याज एव

वयों के साथ संपूर्ण अरग राशि जमा करें, अन्त्रथा उक्त अभिनियम के 13[4] एवं 54 के प्राक्यान के अन्तर्गत, प्राधिकृत अधिकारी

धारकर्लागण ध्वान दें कि अधिनियम 2002 की धारा 13 [15] के अनुसार इस शुलना की प्राप्ति के बाद, आपको प्रतिबंधित

हाँ निषेधित किया जाता है कि आप प्रतिभूत लेनदार की दुर्व निकित शहमति के बिना किसी भी प्रतिभूत परिसंपन्ति के

उधारकर्ताओं का ध्यान, प्रतिभूति हिंदा (प्रवर्तन) नियमायली 2002 के नियम 3(8) के साथ प्रतित धारा-13(8) की ओर आकृष्ट

किया जाता है, जिसके अनुसार उवारकर्ता नीतानी सूचना के प्रकारान से पहले, नीवें उत्तिसंखित पूर्व बकावा राज्ञि के भूगता-

कंबक संपत्ति का विवरण :- आवासीय भूखंद का यह समस्त भाग जिसका क्षेत्रफल 100 वर्ग गज हैं, जो भूखंद

संख्या 197 के 75 वर्ग फुट और 25 वर्ग गज के संयुक्त भाग हैं, प्लॉट संख्या 196, खसरा संख्या 3 / 22(8-0)

में समाहित, वाका मीजा नंगला गुजरान, तहसील एवं जिला– फरीदाबाब, हरियाणा में स्थित, पूर्व की ओर

बंबक संपत्ति का विवरण :- खाली प्लॉट क्षेत्रकल ३३ वर्ग गज, खसरा सख्या ३८६ का भाग, साई गार्डन

हदबस्त, गाँव बंधला, तहसील- लोमी, जिला- गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित, सीमा : पूर्व- प्लॉट अन

रचामी का, पश्चिम- प्लॉट अन्य रचामी का, उत्तर- प्लॉट अन्य रचामी का, दक्षिण- सड़क 15 फीट चौड़ी।

बंधक संपत्ति का विवरण : आवालीय गुरुबर संख्या 530 / 2, दोजफल 25 वर्ग गज, खलरा संख्या 67 में से, विष्णु गाउँन

कॉलोनी, मीव – बहेटा डाजीपुर, परपना– लोनी, तहसील– लोनी, जिला– गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में रिवत है, सीम

ा पूर्व— मालिक का मुखंड, पश्चिम— सड़क— 15 कीट चीडी, उत्तर— मालिक का मूखंड, दक्षिण— मालिक का मुखंड।

वंद्रक संबत्ति का विकरण : आवाशीय भवन का यह पूरा हिरसा जिसका क्षेत्रफल 50 वर्ग गज यानी at.a वर्ग मीटर है, प

खरारा संख्या 2496 का डिस्सा, तुलसी बादरी विहार, बादरी, परगना और शहसील बादरी, जिला – गीतम कुद्र नगर, उत्त

**बंधक संबंधि का विवरण** : मुखंड का वह समस्त भाग जिसका क्षेत्रपत्न 393 वर्ग गज अर्थात 1 कमाल 8 मरला में से 1

मरला, खेवट नंबर 1650, खसरा नंबर 314(0-3), 509 (1-3) जमावदी वर्ष 2018-2019 के अनुसार, बावर मीजा दीवीत

तहसील-नोडल जिला-पलवल, हनियाणा में स्थित है। सीमा इस प्रकार है. पूर्व- घरम पुत्र रवन सिंह का घर, पश्चिम-

घिरा – फ्लॉट संख्या – 214 और 215, पश्चिम-एनए, उत्तर-एनए, दक्षिण – सड़क चौडाई 15 फीट

पर अपनी प्रतिमृत परिलंबित को ऋणमुक्त करने का अधिकारी होना, जो उसके बाद अस्टित्व में नहीं रहेगा।

द्वारा नीचे दिए गए अनुसार बळक संपत्ति / प्रतिमृद्ध परिशयतियाँ की बिकी के लिए जनवर अधिप्रक्रम किया जा रहा है।

वैक्रय, पटटा के माध्यम से अधवा अन्यक्षा इस्तातरित नहीं कर सकेंगे।

जवारकर्ता / आवेदक /

गाएंटर/बंबककर्ता का नाम

सैकुस खान पुत्र सहाबुद्दीन (उचारकता), 2 शाहिद पुत्र सहाबुद्दीन

(सह-ज्यारकर्ता), ३ सहाबुद्दीन पुत्र कजदार (सह-ज्यारकर्ता), ४ सुबानी

पत्नी सहाबुदीन (सङ-जवारकर्ता), उपरोक्त सभी निवासी: गांव पाली

फरीवाबाद, हरियाणा — १२१००४। इसके अलामा – हाचस नंबर–४, जरगंजी

फिलेजपुर, जरका, जरमजी (83) मेबात, हरियाणा–122168, **ऋण संख्या** 

2 1 जब जब रामशाह पुत्र गुलाब शाह (उधारकती) 2 सोनी देवी पत्नी जब

110032 東町 竹町 - LXLAX03621-220012724,

ऋण संपद्मीते की तिथि : 25 सिलंबर 2021,

ऋण शंख्या - LXGGN02922-230016744,

ऋण लगझौते की तिबि : 12-गई-2022

ऋण राशि रु. 2,38,250/-

ऋण राशि क. 6,45,000/-

ऋण राशि क. 2,94,000 /--

जय राम शाह (सह-उदारकर्ता) दोनों उपरोक्त निवासी- असरा संख्या

366, साई मार्थम, ग्राम बंधला, लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201102,

पता यहाँ पर भी : 7 / 117, नकुल गती, विश्वास नगर, जत्तर पूर्व, वित्रती-

वकील शह पुत्र रामावतार शह (उमारकता) 2 शांति देवी पत्नी वकील

शाह (सह-ख्यारकर्ता), दोनों छपरोक्त का पता- पी संख्या ३०३/२ए, विष्णु

गार्जन, लोनी नाजियाबाद, उत्तर प्रदेश– 201102, साथ ही अन्य पता यहा

पर मी : सी-179, अमर विद्यात, लोगी, गाजियाबाद, उत्तर अवेश- 201102,

कमलेश देवी कली स्वर्गीय विनोद कुमार (सह—उचारकर्ता सह कानुन)

जत्तराधिकारी), 2. रोडित सुमार पुत्र स्थर्गीय विनोद कुमार (सह-जवारकर्ता

सह कानूनी उत्तराधिकारी), दोनों उपरोक्त का निवास स्थान- मकान संख्या

156, गली संख्या–5, बादशाह नगर, दादरी, गीतम बद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-

1. नजन लाल पुत्र नाषी (सह-उषारकर्ता सह कानूनी बारिस) 2. शांति

पत्नी कजन लाल (सह-उपारकर्ता सह कानूनी उत्तराधिकारी), दोनों

**एक्नोक्त कर पता**- मंकान नंबर 1008, महायल दीमोट (135), तहसील-

203207 東町 祝郷 - LXLAX02922-230021712.

ऋण समझौते की तिथि : 31 दिसंबर 2022,

होडल, जिला- पलवल, हरियाणा- 121105

ऋष्य अनुबंध विनांक : 19-अगस्त-2023,

स्थान : गुरुग्राम विश्वेक : 17-10-2025

現界 研修町 - LXGGN02923-240027610,

धर्मवीर पुत्र तुलसी का घर, उत्तर- प्लॉट स्वयं का, दक्षिण- सदक।

LXLAX02924-250042428

ऋण राशि च. 27,50,000/-

ऋण समझौता दिनांक- 27-सितंबर-2024

मानतदार/कंपककर्ता को 60 दिनों की मान सुचना निर्मात की थी। सूचना के अनुसान, यदि एयानकर्तागम 60 दिनों के मीठः

### advertisement in any manner whatsoever.

यूनियन बैंक 🕼 Union Bank

स्ट्रेस्ड एसेट मैनेजमेंट शाखा, मुंबई 104. भारत हाउस. ग्राउंड फ्लोर. एम.एस. मार्ग. फोर्ट. मंबई - 40000

प्रतिभा मोसिन्झस्ट्रोई कंसोर्टियम - दिल्ली जल बोर्ड पैकेज 2 अनुबंध में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की धारित प्रतिभृति हित के समनुदेशन/हस्तांतरण हेतु सार्वजनिक सूचना

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्ट्रेस्ड एसेट मैनेजमेंट शाखा, मुंबई, 104, भारत हाउस, ग्राउंड फ्लोर, एम.एस. मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400001इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से, दिल्ली जल बोर्ड - पैकेज 2 परियोजना जो प्रतिभा मोसिन्झस्ट्रोई कंसोर्टियम (जो कि प्रतिभा इंडस्ट्रीज लिमिटेड ( परिसमापन में) का 100% अविनियमित संयुक्त उद्यम है), को अनुबंधित की गई थी, में धारित अपने प्रतिभृति हित के हस्तांतरण/समनुदेशन के लिए इच्छुक पात्र बोलीदाताओं से 'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है' और 'बिना किसी उपचार के आधार' पर प्रस्ताव आमंत्रित कर

प्रतिभा मोसिन्झस्ट्रोई कंसोर्टियम को दिल्ली में नजफगढ़, सप्लीमेंट्री और शाहदरा नालों के साथ इंटरसेप्टर सीवर (जिसमें संबंधित गड्ढे, सीवेज पंपिंग स्टेशन और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक राइजिंग मेन शामिल हैं) के डिजाइन और निर्माण का ठेका पैकेज 2 के लिए दिया गया था। कार्य के दायरे में निर्माण के बाद 11 वर्षों (दोष देयता अविध सिहत) तक सुविधा का निर्माण और संचालन शामिल था।

रुचि की अभिव्यक्ति जमा करने की अंतिम तिथि: 27.10.2025 बोली जमा करने की अंतिम तिथि: 15.11.2025

नोटः विस्तृत नियम एवं शर्तें, बोली दस्तावेज, घोषणा और प्रक्रिया के अन्य विवरण सुविधाकर्ता/प्रक्रिया सलाहकार

इच्छुक प्रतिभागी कृपया संपर्क करेंः सीएमए संजय गुप्ता निदेशक प्राइमस इनसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड वैल्यूएश

प्राइवेट लिमिटेड डी–58, डिफेन्स कॉलोनी, तीसरी मंजिल, नई दिल्ली–110024। ईमेलः djbp.sg@gmail.com sanjay@sgaindia.in / मोबाइलः 9810041074/9540007506 बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

हस्ता./- अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता दिनांक: 17.10.2025 युनियन बैंक ऑफ इंडिया

or entering into any सौ उनवास रुपये और तीन पैसे मात्र) की वस्ती agreements with advertisers हेतु एक वाद स्थापित किया है तथा जबकि न्यायाधिकरण को संतोषजनक रूप से यह दर्शाया जा or otherwise acting on an

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to

acceptance of advertising

copy, it is not possible to verify

its contents. The Indian

Express (P) Limited cannot

be held responsible for such

contents, nor for any loss or

damage incurred as a result of

transactions with companies.

associations or individuals

advertising in its newspapers

or Publications. We therefore

recommend that readers

make necessary inquiries

before sending any monies

चुका है कि आपको साधारण रूप से सूचना देना संगव नहीं है, इसलिए यह सूचना विज्ञापन के माध्यम से दी गई है, आपको दिनांक 25.02.2026 को प्रातः 10.30 एलडी. रजिस्ट्रार. के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। (अधिक जानकारी के लिए कृपवा ढीजारटी की वेबसाइट www.tribunal.gov.in

देखें फोन: 011-23748473. कृपया ध्यान दें कि यदि आप उपर्युक्त तिथि को इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो मामले की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया

() सभी संबंधित व्यक्ति अपने मामलों में हाइब्रिड मोड (न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर या सिस्को वेबेक्स वीसी लिंक के माध्यम) द्वारा उपस्थित हो

(ii) वीसी के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति के लिए सभी अधिवक्ता/वादीगण सिस्को वेबेक्स एप्लीकेशन / सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे (ii) माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार/वस्तुली कार्यालय- 1/और वसूली अधिकारी-- 11 द्वारा लिए

जाने वाले मामलों की सुनवाई की अगली तिथि के लिए "मीटिंग आईडी" और "पासवर्ड" अगली तिथि से एक दिन पहले डीआरटी के आधिकारिक पोर्टल "i.e.drt.gov.in" पर सार्वजनिक स्चना शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध होंगे। (iv) किसी भी आपात रिवाति में, अधिवक्ता/वादी

संबंधित अधिकारी से फोन नंबर 811-23748473 पर संपर्क कर सकते हैं। मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत 08 अक्टूबर, 2025 को दिया गया।

आरक्षित बयाना राशि जमा बकारा राशि

न्यायाधिकरण के आदेशानुसार,

**Piramal** 

ऋण कोड/शाखा/

पिरामल फाइनेंस लिमिटेड

सीआईएन : L65910MH1984PLC032639 पंजीकृत कार्यालयः यूनिट नंबर-601, 6वीं मंजिल, पिरामल अमिति बिल्डिंग, कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस पिरामल अगस्य कॉपेरिट पार्क, कमानी नंक्शन, फायर स्टेशन के सामने, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई - ४०००७ फोन : +91 22 3802 4000

ई-नीलामी बिक्री सुचना- नवीन बिक्री

संपत्ति का

धारकर्ता/ओं से देय राशि की वसूली के लिए वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पिरामल फाइनेंस लेमिटेड(पूर्व में पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित सुरक्षित परिसंपत्ति का कब्जा लेने के अनुसरण में, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अचल संपत्ति की क्रय के लिए, जो कब्जे में है, को 'जहां है जैसा है', 'जो है जैसा है वैसा' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

दिनांक और राशि	पता-अंतिम	आराबात मूल्य	(ईएमडी) (आरपी का 10%)	(14-10-2025)
दिनांकः 26-04-2022, रु.1040342/-, (रु. दस लाख चालीस हजार तीन सौ बयालीस मात्र)	संपत्ति का सम्पूर्ण टुकड़ा और अंश , जिसका विस्तार है:- फ्लैट संख्या- 555 सी, तृतीय तल, न्याय खंड- 3, इंदिरापुरम, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201014, सीमा:- उत्तर - फ्लैट संख्या-552-सी, दक्षिण - अन्य फ्लैट, पूर्व:- फ्लैट संख्या-556-सी, पश्चिम:- फ्लैट संख्या-554-सी	रु. 850000/-, (रु. आठ लाख पचास हजार मात्र)	रु. 85000 / –, (रु. पच्चासी हजार मात्र)	रु. 1740480 / –, (रु. सत्रह लाख चालीस हजार चार सौ अस्सी मात्र)
दिनांकः 23-04-2024, रु. 2689171-, (छब्बीस लाख उनासी हजार एक सौ इक्यावन रुपये मात्र)	संपत्ति का समस्त टुकड़ा और अंश , जिसका विस्तार हैं  — खेत संख्या 497, 514, 515 का भाग, मौजा रामगढ़ पंजूपुर, परगना और तहसील कोइल, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश—202001 सीमाएँ:— उत्तर:— अन्य संपत्ति दक्षिण:— सड़क 12 फीट पूर्व:— जिशान का मकान पश्चिम:— अफसाना का मकान	रु. 2150000 / – , (इक्कीस लाख पचास हजार रुपये मात्र)	रु. 215000/-, (केवल दो लाख पंद्रह हजार रुपये)	रु. 3371050 / –, (तैंतीस लाख इकहत्तर हजार पचास मात्र)
दिनांकः 25-02-2023, रु. 1153611/-, (ग्यारह लाख तिरपन हजार छह सौ ग्यारह रुपये मात्र)	संपत्ति का सम्पूर्ण टुकड़ा और अंश — पलैट संख्या 74, चौथी मंजिल, ब्लॉक—जी—4, पॉकेट—3, सेक्टर—जी—8, नरेला दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्लीः —110076	रु. 660000 / – (छह लाख साठ हजार रुपये मात्र)	रु.66000 / –, (छियासठ हजार रुपये मात्र)	रु.1619065 / –, (सोलह लाख उन्नीस हजार पेंसठ रुपये मात्र)
दिनांकः 27—10—2023, रु. 17649500 / — (एक करोड़ छिहत्तर लाख उनचास हजार पांच सौ रुपये मात्र)	संपत्ति का सम्पूर्ण टुकड़ा और अंश , जिसका विस्तार है:— यूनिट संख्या 02, पाँचवीं मंजिल, टावर पी 06, एनए , सेक्टर—92, क्रिसेंट पार्क, सेक्टर—92, क्रिसेंट पार्क, सारे होम, गुड़गांव, हरियाणा,भारत 122001	12560000 / –, (एक करोड़ पच्चीस लाख साठ हजार रुपये मात्र)	रू 1256000 / –, (बारह लाख छप्पन हजार रुपये मात्र)	रु. 25852540 / –, (दो करोड़ अट्टावन लाख बावन हजार पाँच सौ चालीस मात्र)
दिनांकः 29–01–2019, रु. 2132309 / – (इक्कीस लाख बत्तीस हजार तीन सौ नौ रुपये मात्र)	संपत्ति का सम्पूर्ण टुकड़ा और अंश, जिसका विस्तार है:— पलैट संख्या 4, ऊपरी तल, मध्य भाग (स्केच देखें) प्लॉट संख्या 31, विक्रम एन्क्लेव, पासोंडा, लोनी, गाजियाबाद, गाजियाबाद—201010 सीमाएँ:— उत्तर:—पलैट संख्या—6, दक्षिण:—पलैट संख्या—2, पूर्व:—सीढ़ी / बालकनी, पश्चिम:—पलैट संख्या 3	रु. 2450000 / –, (चौबीस लाख पचास हजार रुपये मात्र)	रु. 245000/—, (दो लाख पैंतालीस हजार रुपये मात्र)	रु.1951969 / –, (रु. उन्नीस लाख इक्यावन हजार नौ सौ उनहत्तर मात्र)
	दिनांकः 26-04-2022, रु.1040342/-, (रु. दस लाख चालीस हजार तीन सौ बयालीस मात्र)  दिनांकः 23-04-2024, रु. 2689171-, (छबीस लाख उनासी हजार एक सौ इक्यावन रुपये मात्र)  दिनांकः 25-02-2023, रु. 1153611/-, (ग्यारह लाख तिरपन हजार छह सौ ग्यारह रुपये मात्र)  दिनांकः 27-10-2023, रु. 17649500/- (एक करोड़ छिहत्तर लाख उनचास हजार पांच सौ रुपये मात्र)  दिनांकः 29-01-2019, रु. 2132309/- (इक्कीस लाख बत्तीस हजार तीन सौ नौ रुपये	दिनांकः 26—04—2022, रु.1040342 / —, (रु. तस लाख वालीस हजार तीन सौ वयालीस मात्र)  दिनांकः 23—04—2024, रु. 2689171—, (छबीस लाख उनासी हजार एक सौ इक्यावन रुपये मात्र)  दिनांकः 25—02—2023, रु. 1153611 / —, (ग्यारह लाख तिरपन हजार छह सौ ग्यारह रुपये मात्र)  दिनांकः 27—10—2023, रु. 17649500 / — (एक करोड़ छिहत्तर लाख उनचास हजार पंचे सात्र)  दिनांकः 29—01—2019, रु. 2132309 / — (इक्कीस लाख बत्तीस हजार प्रवेश संप्या हत्तीस हजार प्रवेश संप्या हत्तीस हजार प्रवेश संप्या हत्तीस हजार विनांकः सम्पूर्ण टुकड़ा और अंश , जिसका किरतार है — खेत संख्या 497, 514, 515 का माग, मौजा रामगढ़ पंजुपुर, परगना और तहसील कोइल, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रवेश—20201 सीमाएँ:— उत्तर:— अन्य संपत्ति दक्षिण:— सड़क 12 फीट पूर्व:— जिशान का मकान पश्चिम:— अफसाना का मकान पश्चिम:— अफसान का मकान पश्च	दिनांकः 26-04-2022, रु. 1040342 / -, (रु. दस लाख चालीस हजार तीन सौ व्यालीस मात्र)  दिनांकः 23-04-2024, रु. 2669171-, (छबीस लाख उनासी हजार एकं सौ इक्यावन रुपये मात्र)  दिनांकः 23-04-2024, रु. 2689171-, (छबीस लाख उनासी हजार एकं सौ इक्यावन रुपये मात्र)  दिनांकः 25-02-2023, रु. 1153611 / -, (यारह लाख तिरपन हजार छह सौ यारह रुपये मात्र)  दिनांकः 27-10-2023, रु. 17649500 / - (एक करोड़ छिहत्तर लाख उनचास हजार मात्र)  दिनांकः 27-10-2023, रु. 17649500 / - (एक करोड़ छिहत्तर लाख उनचास हजार मात्र)  दिनांकः 29-01-2019, रु. 2132309 / - (इक्कीस लाख वत्तीस हजार सो ने स्था से रुपये से से एकंट से से यार्थ मात्र)  संपति का सम्पूर्ण टुकड़ा और अंश , जिसका विस्तार है - खेत संख्या 497, 514, 515 का माग, मौजा रामगढ़ पंचास हजार उत्तर प्रदेश-202001 सीमार्थ: - उत्तर:- अन्य संपत्ति विश्वः सड़क 12 फीट पूर्वः - जिशान का मकान पश्चिमः- अफसाना का मकान पश्चिमः- अस्य पश्चिमः- अस्य स्था अस्य अस्य अस्य अस्य अस्य अस्य अस्य अस्य	दिनांक और राष्ट्रि  दिनांक विक्वन अर्थर राष्ट्रि  दिनांक: 26-04-2022, रु.1040342 / -, (रु. चस लाख चालांस हजार तीन सी बयालोस मात्र)  दिनांक: 23-04-2024, रु. 2689171-, (छब्वीस लाख उनासी हजार तीन सी बयालोस मात्र)  दिनांक: 23-04-2024, रु. 2689171-, (छब्वीस लाख उनासी हजार रु. 245000/ -, (रु. प्राच्चासी हजार एक सी इक्यावन रुपये मात्र)  दिनांक: 25-02-2023, रु. 1153611/ -, (यारह लाख तिरमन हजार छह सी यारह लाख रुपये मात्र)  दिनांक: 27-10-2023, रु. 17649500 / (एक करोड़ छिहत्तर प्रचेण 202, प्रचंची मंजिल, ट्रांक्ट पांक्ट रुपये मात्र)  दिनांक: 27-10-2023, रु. 17649500 / (एक करोड़ छिहत्तर प्रचंचा 27, व्राच्चा हजार प्रचंच 27, व्राच्चा हजार रुपये मात्र)  दिनांक: 27-10-2023, रु. 17649500 / (एक करोड़ छहत्तर प्रचंचा 4, उपये मात्र)  दिनांक: 29-01-2019, रु. 2132309 / (इक्कीस लाख बत्तीस हजार प्रचंच 11, प्रचंची संवाच रुपये सात्र)  दिनांक: 29-01-2019, रु. 2132309 / (इक्कीस लाख बत्तीस हजार प्रचंच 13, व्रचंचा 2010) सीमाएँ - उत्तर- प्रचंच संख्या - प्रचंच

उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता को सरफेसी अधिनियम के तहत वैधानिक 30 दिन की बिक्री नोटिस,

उपर्युक्त उधारकर्ता / गारंटर को सूचित किया जाता है कि वे नीलामी की तारीख से पहले तक अर्जित ब्याज के साथ धारा 13(2) में उल्लिखित राशि का पूरा भूगतान करें। ऐसा न करने पर संपत्ति को नीलाम/बेच दिया जाएगा और शेष बकाया, यदि कोई हो, को ब्याज और लागत के साथ उधारकर्ता/गारंटर से वसूल किया जाएगा। ऋणकर्ताओं का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्ति के मोचन हेतु उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 8 की ओर आकर्षित किया जाता है। ऋणकर्ता विशेष रूप

हस्ता /- (प्राधिकृत अधिकारी) पिरामल फाइनेंस लिमिटेड

office at the address mentioned BUSINESS DAILY FOR DAILY BUSINESS **♦FINANCIAL EXPRESS** 

मांग सूचना

शाखा कार्यालयः संख्या-६, ब्लॉक ए, सेक्टर-२, नोएँडा, उत्तर प्रदेश-201301 संपर्क व्यक्तिः 1. पंकन कश्यप - 9136178689 2. निक्की कुमार - 9650606340 3. वरूण कुमार - 8445422518

ऋण कोड संख्याः 1900000518, गाजियाबाद (शाखा), अभिलाष वर्मा (उधारकर्ता), पूनम वर्मा (सह—उधारकर्ता 1)	दिनांकः 26-04-2022, रु.1040342/-, (रु. दस लाख चालीस हजार तीन सौ बयालीस मात्र)	संपत्ति का सम्पूर्ण टुकड़ा और अंश , जिसका विस्तार है:- पलैट संख्या- 555 सी, तृतीय तल, न्याय खंड- 3, इंदिरापुरम, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201014, सीमा:- उत्तर - फ्लैट संख्या-552-सी, दक्षिण - अन्य फ्लैट, पूर्व:- फ्लैट संख्या-556-सी, पश्चिम:- फ्लैट संख्या-554-सी	रु. 850000 / – , (रु. आठ लाख पचास हजार मात्र)	रु. 85000 / –, (रु. पच्चासी हजार मात्र)	रु. 1740480 / –, (रु. सत्रह लाख चालीस हजार चार सौ अस्सी मात्र)
ऋण कोड संख्याः HLSA00056C0A, लीगढ़ (शाखा), अकील खान (उधारकर्ता), अस्मा (सह—उधारकर्ता 1)	दिनांकः 23-04-2024, रु. 2689171-, (छब्बीस लाख उनासी हजार एक सौ इक्यावन रुपये मात्र)	संपत्ति का समस्त टुकड़ा और अंश , जिसका विस्तार हैं  — खेत संख्या 497, 514, 515 का भाग, मौजा रामगढ़ पंजूपुर, परगना और तहसील कोइल, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश—202001 सीमाएँ:— उत्तर:— अन्य संपत्ति दक्षिण:— सड़क 12 फीट पूर्व:— जिशान का मकान पश्चिम:— अफसाना का मकान	रु. 2150000 / –, (इक्कीस लाख पचास हजार रुपये मात्र)	रु. 215000/-, (केवल दो लाख पंद्रह हजार रुपये)	रु. 3371050 / –, (तैंतीस लाख इकहत्तर हजार पचास मात्र)
ऋण कोड संख्याः 19600044618, गुरुग्राम — एमजी रोड (शाखा), रोशा कुमारी उधारकर्ता), श्याम प्रकाश सिंह (सह—उधारकर्ता 1)	दिनांकः 25-02-2023, रु. 1153611/-, (ग्यारह लाख तिरपन हजार छह सौ ग्यारह रुपये मात्र)	संपत्ति का सम्पूर्ण टुकड़ा और अंश — पलैट संख्या 74, चौथी मंजिल, ब्लॉक—जी—4, पॉकेट—3, सेक्टर—जी—8, नरेला दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्लीः —110076	रु. 660000 / – (छह लाख साठ हजार रुपये मात्र)	रु.66000 / –, (छियासट हजार रुपये मात्र)	रु.1619065 / –, (सोलह लाख उन्नीस हजार पेंसठ रुपये मात्र)
ऋण कोड संख्याः 09200001361, दिल्ली — पीतमपुरा (शाखा), मोनीत गपाल(उधारकर्ता), अनुराग गपाल (सह—उधारकर्ता 1) केवीएम स्टील प्राइवेट गमिटेड (सह—उधारकर्ता 2)	दिनांकः 27—10—2023, रु. 17649500 / — (एक करोड़ छिहत्तर लाख उनचास हजार पांच सौ रुपये मात्र)	संपत्ति का सम्पूर्ण टुकड़ा और अंश , जिसका विस्तार है:— यूनिट संख्या 02, पाँचवीं मंजिल, टावर पी 06, एनए , सेक्टर—92, क्रिसेंट पार्क, सेक्टर—92, क्रिसेंट पार्क, सारे होम, गुड़गांव, हरियाणा,भारत 122001	12560000 / –, (एक करोड़ पच्चीस लाख साठ हजार रुपये मात्र)	रु 1256000 / –, (बारह लाख छप्पन हजार रुपये मात्र)	रु. 25852540 / –, (दो करोड़ अट्ठावन लाख बावन हजार पाँच सौ चालीस मात्र)
ऋण कोड संख्याः 9600042980, गुरुग्राम – मजी रोड (शाखा), नितिन मार (उधारकर्ता), सोनिया बिष्ट (सह—उधारकर्ता 1)	दिनांकः 29–01–2019, रु. 2132309 / – (इक्कीस लाख बत्तीस हजार तीन सौ नौ रुपये मात्र)	संपत्ति का सम्पूर्ण टुकड़ा और अंश, जिसका विस्तार है:— पलैट संख्या 4, ऊपरी तल, मध्य भाग (स्केच देखें) प्लॉट संख्या 31, विक्रम एन्क्लेव, पासोंडा, लोनी, गाजियाबाद, गाजियाबाद—201010 सीमाएँ:— उत्तर:—फ्लैट संख्या—6, दक्षिण:—फ्लैट संख्या—2, पूर्व:—सीढ़ी/बालकनी, पश्चिम:—फ्लैट संख्या 3	रु. 2450000 / –, (चौबीस लाख पचास हजार रुपये मात्र)	रु. 245000/—, (दो लाख पँतालीस हजार रुपये मात्र)	रु.1951969 / – , (रु. उन्नीस लाख इक्यावन हजार नौ सौ उनहत्तर मात्र)

से और आम जनता कृपया ध्यान दें कि यदि किसी भी कारण से यहाँ निर्धारित नीलामी विफल हो जाती है, तो सुरक्षित ऋणदाता निजी संधि के माध्यम से अपनी सुरक्षा लागू दिनां क: 17.10.2025 स्थानः दिल्ली